### SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED

Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 110029

Phone: +91-11-26169909, 26169712 Fax: +91-11-26195897

Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh - 462011

Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email: compliance@somindia.com Website: www.somindia.com

CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)



01.08.2023

### SDBL/BSE/NSE/2023

### To

The Manager,

Listing Department,

NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

'Exchange Plaza' C-1, Block G,

Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai-400 051.

cmlist@nse.co.in
Security ID: SDBL

Dy. General Manager,

Department of Corporate Services,

BSE LIMITED,

First Floor, P.J. Towers,

Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001.

corp.compliance@bseindia.com

Security ID: 507514

### SUB: NEWSPAPERS ADVERTISEMENT – CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING

Dear Sir/Madam,

In terms of Regulation 30 and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith advertisements published in newspapers i.e. Corrigendum to the Notice of Extra-Ordinary General Meeting to be held on Saturday, August 5, 2023 at 12:30 p.m. through Video Conference ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM").

The above-mentioned advertisement is published in Business Standard Hindi and Business Standard English, newspapers on August 1, 2023

The same has also been uploaded on the Company's www.somindia.com.

This is for your information and records please.

For Som Distilleries and Breweries Limited

Om Prakash Singh Company Secretary & Compliance Officer

issue and Valuation Report.

SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED Registered Office: I-A, Zee Plaza, Arjun Nagar, Safdarjung Enclave, Kamal Cinema Road, New Delhi - 1100/29 Phone: +91-11-26189909, 26189712 Fax: +91-11-26196897 Corporate Office: SOM House, 23, Zone II, M.P. Nagar, Bhopal (M.P.)-462011 Phone: +91-755-4278827, 4271271 Fax: +91-755-2557470 Email: compliance@somindia.com Website: www.somindia.com CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL)

he Company has issued a Notice dated July 8, 2023 (Notice of EOGM)for convening the Extra-Ordinary General Meeting ("EOGM") of the Members of SOM DISTILLERIES AND BREWERIES LIMITED which is scheduled to be held on Saturday, August 5, 2023 at

12:30 p.m. through Video Conference ("VC") or Other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact businesses, as set out in the Notice convening the EOGM. The notice of the EOGM was sent to the Members of the company in due compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 read with relevant Rules made thereunder, on 14th July, 2023.

The Company has now issued a Corrigendum dated July 31,2023 to the said Notice as

Additional information in Explanatory Statement to Item No.1 and 2 in the Notice of EDGM to the statements issued under Section 102of the Companies Act, 2013 and other

applicable provision, Rules and Regulations. The said Additional information pertains to the disclosures given under "Object of the Preferential Issue" and "Issue Price and the Basis or justification on which the price has been arrived"which is referenced on Page

Nos.17, 18,19, 24 and 25 and wherever the reference is drawn to the Objects of the

The Shareholder should take a note that this Corrigendum shall form an integral Part of the said Notice of the proposed EOGM. This Corrigendum is also made available on website of BSE Limited and NSE Limited at www.bseindia.com,

website of the company www.somindia.com and on the website of NSDL at

www.evoting.nsdl.com. All the other content of the Notice of the EOGM dated July 8th 2023 remain same as before. The Members of the Company are requested to take note of

**AVANTI FINANCE PRIVATE LIMITED** 

NOTICE ON SHIFTING OF REGISTERED OFFICE( BENGALURU)

Private Limited and allowing us to serve your financial needs

We intimate our valued customers who are having relationship with our Registered Office located at 456, Ground 1st & 2nd Floor, 4th Block, BDA Layout, Koramangala Extension

Koramangala, Bengaluru- 560 034 that this Registered Office shall be Shifted to # 2727, 2nd floor, 1st Main Road, HAL 3rd Stage, Ward no 58 (Old no 83) Bengaluru- 560075 which is

All accounts maintained at the above Registered Office will

be automatically transferred to our New Registered Office and our authorised Partners and Agents will continue to

All the existing services you currently avail from this Registered Office can be accessed from new Registered Office and details

ADDRESS OF NEW REGISTERED OFFICE:

2727, 2nd floor, 1st Main Road, HAL 3rd Stage, Ward no 58 (Old no 83) Bengaluru - 560 075

Name of the contact person: Saurabh Kumar

Contact Number: 98450 93467

email id:saurabh.kumar@avantifinance.in

We appreciate your continued business and trust in us as we

AVANTI FINANCE PRIVATE LIMITED

Regd.Off.: No.456, Ground 1st & 2nd Floor, 4th Block

BDA Layout, Koramangala Extension, Koramangala, BENGALURU – 560 034 Karnataka, India

CIN: U65929KA2016PTC138355

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR

[SWARNA HOSPITAL PRIVATE LIMITED] OPERATING IN [HOSPITAL]

AT- [C-1, JAYDEV VIHAR, BHUBANESWAR-751013]

(Under Regulation 36A(4A) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India
(Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

RELEVANT PARTICULARS

2 Address of the registered office C-1, Jaydev Vihar, Bhubaneswar 751013

3. URL of website

Installed capacity of main

Number of employees/ workmen N/A

Further details including last

process are available at:

Last date for receipt o expression of interest

prospective resolution applicants

objections to provisional list

Date of issue of provisional list of 14.08.2023

Last date for submission of 19.08.2023

is available at:

Date:01.08.2023

Name of the corporate debtor SWARNAHOSPITAL PRIVATE LTD. along with PAN/ CIN/ LLP No. CIN- U00093OR2005PTC008471

Details of place where majority C-1, Jaydev Vihar, Bhubaneswar of fixed assets are located 751013

Quantity and value of main possession of the Central Bank products/ services sold in last of India as per SARFAESI Act, 2002 and non-operative since

available financial statements Refer the detailed related

(with schedules) of two years, documents to be provided on lists of creditors, relevant dates request to RP at email-

for subsequent events of the swarnahospital2015@gmail.com

Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the Code is available at:

Refer the detailed Invitation of Interest to be provided on request to RP at email-

13. Process email id to submit EOI swarnahospital2015@gmail.com

FY 2015 onwards

07.08.2023

Sri Chaitanya Kumar Ray, Resolution Professional RP Reg. No.- IBBI/IPA-003/IP-N00032/2017-18/10260 MIG-26, Manarama Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751010 for Swarna Hospital Private Limited

swarnahos pital 2015@gmail.com

work to efficiently serve your financial needs in the future.

effective from from 02nd November 2023.

provide the services for the existing customers.

By Order of the Board

AVANTI

Om Prakash Singh Company Secretary & Compliance Officer

Sale of Corporate Debtor as a Going Concern and Sale of certain Assets on standalone basis under the insolvency and Bankruptcy Code, 2016

Date and Time of E-Auction: 28th August, 2023 at 11:00 AM to 02:00 PM

(With unlimited extension of 10 minutes each)

### Sale Notice

Notice is hereby given for Sale of "M/s BIL Infratech Ltd— In Liquidation (Corporate Debtor)" as a Going Concern and Sale of certain Assets on Standalone Basis forming part

### LOT-1 Sale of Corporate Debtor as a Going Concern along with all assets including Securities & Financial Rs 8.10 Rs 0.81 Rs 25.00

The sale shall be subject to the Terms and Conditions prescribed in the "E-Auction Process Information Document" available at https://nclt.auctiontiger.net and

 It is clarified that, this invitation purports to invite prospective bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator or the Company to effectuate the sale. Liquidator of M/s BIL Infratech Limited reserves the right to suspend prospective bidder/bid/offer at any stage of the e-auction process without assigning an

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS", "WHATEVER

The last date for submission of Eligibility documents and Refundable Deposit as mentioned in the Process Documents is 16th August, 2023. Inspection Date17th August, 2023 to 23rd August, 2023. The Bid Documents details and EMD payment details should reach the office of the Liquidator physically or by E-mail at the address given below by 06:00 PM on 25th August, 2023.

Any modification in timelines and/or in the "e-auction process information document

For any query, contact Mr. Subodh Kumar Agrawal, mob- 9830022848, mail id-cirp.bilinfra@gmail.com or Contact: Mr. Praveen Kumar Thevar 9722778828 - 079 6813

Date: 31.07.2023

CIN No:L55101MH2007PLC173446
Regd. Off.:D-09, Eastern Business District, LBS Road, Bhandup West, Mumbai - 400078

ompany will be held on Friday, 25th August, 2023 at 11.00 a.m. through Video ieneral Circular Nos. 14/2020. 17/2020. 20/2020. 02/2021. 19/2021. 21/2021 and 02/202 05.05.2022 and 10/2022 dated 28/12/2022 respectively of Ministry of Corporate Affairs (MCA Circulars) and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May 2020, no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, no SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD 2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 issued by the Securities and Exchange Board of idia (SEBI Circular) and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and all other

the Company https://www.kamatsindia.com/annual-report-kamats-restaurant on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com and on the website of Bombay Stock Exchange imited www.bseindia.com.

embers holding shares, as on the Record date / cut-off date Friday 18th August, 2023, w

The Board Director have recommended a final dividend on equity shares at the rate of 5% i. fter 29th August, 2023, to the members whose names appear on the Company Register of tembers maintain by Registrars and Transfer Agents of the Company, M/s. Bigshar ervices Private Limited on the Record Date through various online transfer modes to th

To received credit of Dividend in Bank Account, Shareholders are requested to update Bank account without delay by emailing at investor@bigshareonline.com along with copy o signed request letter mentioning name of the member, folio number, bank details, self tested copy of pan and cancelled cheque leaf(members holding shares in physical mode with their respective depository participants (members holding shares in Demat mode). embers holding shares in physical mode and who have not registered or updated the es with the Company are requested to register or update their email addre

For Vidil Restaurants Limited Dr.Vidhi V. Kamat

### Managing Director DIN: 07038524

Regd. Office: 1101, Crescenzo, G-Block, Opp. MCA Club, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400051

Tel.No. (022) 67406300, Fax No. (022) 67406514, Website: www.borosilrenewables.com, Email: bri@borosil.com NOTICE OF 60TH ANNUAL GENERAL MEETING

Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with all the applicable circulars on the matter issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and the Securities and Exchange Board of India The Annual Report for the financial year 2022-23 (including Notice of the AGM) will be sent, electronically, to all those equity shareholders holding shares as on July 28, 2023 and whose e-mail addresses are registered with the Registrar and Transfer Agent / Depositories. The said Annual Report including Notice will also be made available on Company's website at <a href="www.borosilrenewables.com">www.borosilrenewables.com</a> and on the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively. The Notice Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com being the agency appointed by the Company for VC and e-voting facility (i.e. remote voting and e-voting during the AGM).

Manner of casting vote(s) through e-voting and attending AGM

The Company will be providing to the shareholders the facility to exercise their right to vote by electronic means i.e. e-voting facility. The Notice of the AGM inter alia contains the process and manner of e-voting, which includes the process and manner of e-voting by nareholders holding shares in physical form or by shareholders who have not registered their email addresses. The process and manner to attend AGM through VC is also given in the Notice of the AGM.

forms prescribed by SEBI for furnishing the above details are available on the Company's website at www.borosilrenewables.com as well as on RTA's website at <a href="www.unisec.in">www.unisec.in</a>. For any clarifications / queries with respect to the submission of above mentioned forms, shareholders may contact the RTA at (022) 4918 6178-79 or by email on borosil@unisec.in

Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register /update KYC details such as PAN (Aadha linked). Nomination Details. Contact Details (address with PIN. mobile number and email address), Bank Account Details (bank

For Borosil Renewables Limited

### **HOME GUARD SHOT DEAD IN HARYANA VIOLENCE**



A home guard was shot dead and around a dozen policemen injured as a mob in Haryana's Nuh district tried to stop a Vishya Hindu Parishad procession, pelting stones and setting cars on fire, police said. As news of the violence in Nuh spread, mobs in adjoining Gurugram district's Sohna set ablaze four vehicles and a shop; protesters blocked a road for hours. Mobile internet services were suspended until Wednesday to contain the "intense communal tension", the Haryana government said

# No plan to give autonomy to statistical panel: Centre

mid the ongoing debate on the quality of official data, the government on Monday informed the Rajya Sabha that it had no proposal to empower the National Statistical Commission (NSC) by bringing enabling legislation.

In response to a question whether the government is by insulating the selection process from political bias, Rao Inderiit Singh, minister of state for statistics and programme implementation, said the chairman and members of the NSC are selected on the basis of the recommendations of a search committee duly constituted by the government from time to time. "In view of this, at present, there is no such proposal under

consideration," he said. Besides, the minister said that since there is no proposal for such legislation, providing the NSC with financial autonomy and creating a technically equipped entity with statutory powers to oversee the statistical system does not arise. In line with the Rangarajan Commission's recommendations, the Centre set up a NSC to serve as a nodal and empowered body for all core statistical activitie of the country. This was authorised to evolve, monitor, and enforce statistical priorities and standards and to ensure statistical coordination among the different agencies involved.

### ₹14,302 cr of GST evasion detected in April, May



financial year, while ₹5,716 crore was recovered during the period,

Parliament was informed on Monday. Finance Minister Nirmala Sitharaman in a written reply in the Lok Sabha gave details of Goods and Services Tax (GST) and income tax evasion, as well as detection of outright smuggling by the Customs

According to the data, GST evasion of over₹2.68 trillion was detected in 43,516 cases between 2020-21 and 2023-24 (April-May). A recovery of ₹76,333 crore was made during the period while 1,020 people were arrested. In 2022-23 financial year alone. 741 groups were searched and ₹1,765.56



### Govt: No offset obligation

lapsedin5yrs The quantum of defence offset obligations for which claims have been submitted is \$6.85 billion,

Monday. Minister of State for Defence Ajay Bhatt said in Rajya Sabha, no offset obligation has lapsed during

the past five years.

# informed Parliament on Monday.

The Enforcement Directorate(ED) has registered 3,110 cases under the anti-money laundering law and over 12,000 complaints to probe alleged foreign exchange violations over the last three years, the government

3,110 money laundering,

12K FEMA cases in 3 years

Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary told the Lok Sabha in a written reply.

### Bank fraud cases decline on improved detection: Govt

Minister of State for Finance Bhagwat Karad said bank ₹1,650 crore in 2022-23.

Comprehensive steps, including measures to address security flaws/loopholes and to strengthen the fraudrisk management mechanism in banks, have been taken by the government, RBI and public-sector banks, Karad said in a written reply to the Lok Sabha.

**ALL IN A DAY** 

## Railway guard shoots dead senior, 3 others on Jaipur-Mumbai train

A Railway Protection Force (RPF) constable on Monday morning shot dead his senior colleague and three passengers in two bogies and a pantry car on board the moving Jaipur-Mumbai Central Express near Palghar railway station in Maharashtra, officials said. He was nabbed with his weapon later while trying to flee after passengers pulled the chain of the train which stopped near Mira Road station (on the Mumbai suburban network) at around 6 am.

Constable Chetan Singh (34) shot dead RPF Assistant Sub-Inspector Tika Ram Meena and another passenger in B5 coach with his

automatic weapon. He then shot dead another passenger in a pantry car and one more passenger in S6 coach next to the pantry car after 5 am, a Railway official said. Earlier in the day, the GRP control room and a senior official had identified the accused as Chetan Kumar Choudhary.

In the afternoon, GRP commissioner Ravindra Shisve told reporters the constable has been identified as Chetan Singh. Government Railway Police Commissioner Ravindra Shisve told media that the exact reason behind the incident was not known vet as an investigation is underway.

### Land-for-jobs case: ED seizes ₹6 cr assets of Lalu's family, firms

The Enforcement Directorate (ED) on Monday said it attached assets worth over ₹6 crore of Rashtriya Janata Dal supremo Lalu Prasad's family - his wife Rabri Devi, daughter Misa Bharti and linked firms - as part of its money laundering probe in an alleged land-for-railway jobs scam. A provisional order has been issued to attach the six immovable assets in Patna, Ghaziabad (Uttar Pradesh), and a fourstorey bungalow in south Delhi.

### **UP CM calls mosque** in Gyanvapi a 'historical mistake'

Muslim society should offer a solution for the "historical mistake", Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has said amid the controversy surrounding the Gyanyapi mosque in Varanasi. He told ANI the walls of Gyanvapi were "screaming" and calling it a mosque would cause "dispute". "We should just call it Gyanvapi. What is a trishul (trident) doing inside a mosque? We did not put it there," he said.

# Offence against

The Supreme Court Monday termed as 'horrendous" the video of two women being paraded naked in Manipur amid reports that the police handed them over to the rioting mob, asked searching questions over delayed registration of the FIR and mooted the idea of setting up a committee of retired judges or an SIT to oversee the probe.

West Bengal, Rajasthan, Chhattisgarh and Keralabe forming SIT also taken note of. Seeking or panel to report about the action taken by the state in around

6,000 cases related to the ethnic conflict, a Bench headed by Chief Justice DY Chandrachud said Manipur police cannot be allowed to continue with its probe in view of the news reports that it were policemen who virtually handed over the women to the mob

The Bench, also comprising justices JB Pardiwala and Manoj Misra, asked as to why the state police took 14 days to register an FIR. Expressing surprise over the Manipur government not being in possession of facts even today when several things have been reported in the media, the bench said the apex court is dealing with "systemic violence" and its concern is that the investigation proceeds properly. "What was the police doing? Why was an FIR in video case transferred to magisterial court on June 24 that is after one month and three days? asked the Bench.

# Manipur women horrendous: SC

Describing the violence perpetrated against women in strife-torn Manipur as one of "unprecedented magnitude", the top court refused to consider vehement submissions of lawyer and BJP leader Bansuri Swaraj that similar alleged incidents in opposition-ruled states like The apex court

moots idea of oversee probe

# E-Auction for Sale of Assets of Cox & Kings Limited Under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 Date and Time of Auction: 28th August, 2023 from 2,00 PM to 4.00 PM (With unlimited extension of 5 minutes each)

Notice of Sale of Assets of Cox & Kings Limited
Cox & Kings Limited (In Liquidation)
egistered Office: Unit no. 313, 3rd Floor, Turf Estate, Mahalaxmi, Mumbal 400011)
Administrative Office: Ibdi Estate, Unit No. 48, A-Wing 4th floor,
Sun Milli Compound, Above Post office, Lower Parel (W), Mumbal 400013
Liquidator: Nr. Ashutesh Agarwala
Address for Correspondence: Peninsula Business Park, Tower B, 19th Floor,
Lower Parel, Mumbal 400013, India. Email ID: Ip.coxandkings@excedor.com

Notice for sale of Assets of M/s. Cox & Kings Limited -In Liquidation ("Company") by the Liquidator appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, Mumbai Bench vide order dated 16th December 2021. The sale of Assets will be done by the Liquidator on E-Auction Platform on the portal (<a href="https://www.eauctions.co.in">https://www.eauctions.co.in</a>) of M/s Linkstar Infosys Private Limited.

	Description of Assets	Reserve Price in INR (Assets for Sale)	Earnest Money Deposit (EMD) in INR
1.	Sale of M/s Cox & Kings Limited – In Liquidation ("Company") as a Going Concern	Rs. 20.67 crores	Rs. 41.33 Lacs
2.	Sale of Trade Receivables of M/s Cox & Kings Limited outstanding as on 30th July, 2023 collectively as a set of Assets.	Rs. 9.24 crores	Rs. 9.24Lacs
1. 2. 3.	Sale of Trademarks & Domains Names of W/s Cox & Kings Limited collectively as a set of Assets	Rs. 27.87 crores	Rs. 55.74 Lacs
4.	Sale of each of the Paintings & Artefacts of W/s Cox & Kings Limited as an individual Asset on standalone basis.	Rs. 1.50 crores (Aggregate Reserve Price)	Rs. 15.00 Lacs (Aggregate EMD)

The sale of Assets is grouped in 4 (four) Lots and the Eligible Bidders may Bid for each individual lot or for multiple lots. Additionally, in case of Lot No. 4 of Paintings and Artefacts, the Eligible Bidders may Bid for one (1) Item or any combination of multiple Items.

Terms and Condition of the E-Auction are as under:

erms and Condition of the E-Auction are as under:

E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "AS IS WHAT IS" AND "WHATEVER THERE IS" basis. As such sale of the Assets of the Company is without any recourse or any kind of warranties and indemnities and is being conducted through approved E-Auction Service Provider M/s Linkstar Infosys Private Limited.

The complete E-Auction Process Document containing overview of the Assets of the Company along with Eligibility Documents and other supporting documents to be submitted by the Bidders including General Terms and Conditions of the E-Auction Process and the technical procedure for submits sion of Bids are available on website of the Company (Intios://www.coxandkings.com/liquidation-process/) and the website of the E-Auction Service Provider (https://www.coxandkings.com/liquidation-process/)

(https://www.coxanushus.co.nuspassanus

Frovider Intigs://www.eauctions.co.in/)

The Qualified Bidders will be identified by the Liquidator and only the Qualified Bidders can participate in E-Auction Process on the E-Auction Patform (https://www.eauctions.co.in/) after payment of Earnest Money Deposit (EMD). The E-Auction Service Provider (M/s Linkstar Infosys Private Limited) will provide User ID and Password by email to the Qualified Bidders on registration at the E-Auction Platform.

The Qualified Bidders, prior to submitting their Bid, should make their independent inquiries regarding the Company, Assets, Claims and Liabilities, Commercial and Financial Commitments, Operational and Maintenance charges, and other Recurring and Incidental business costs, if any, at their own expense and satisfy themselves.

The Successful Bidder shall be responsible for the applicable stamp duties, legal costs, transfor charges and fees, GST or any other taxes related to the sale of Assets under this E-Auction and for completing the documentation and obtaining the permissions relating to the sale of Assets of the Company and sale of Company as a going concern.

The sale shall be subject to provisions of insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and related regulations. For the sale of Company as a going concern, the Liquidator/ Successful Bidder would be mandatorily required to approach to Hon'ble NCLT, Mumbal Bench for suitable orders in accordance with the E-Auction Process Document.

The Liquidator has the absolute right to accept or reject or modify any or all the Bids or adjourn/postpone/cancel the E-Auction at any stage without assigning any reason thereof.

Ashutosh Agarwala, Liquidator

noncomment of the Action of th

Place: Mumbal Date: 1st August, 2023

Date : July 31, 2023

Kishor Talreja

of Liquidation Estate formed by the Liquidator, appointed by the Hon'ble NCLT Kolkata Benci under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the regulations made thereunder

cash/ Bank balance over and above Rs 25.00 Lakh)

LOT-2 9% Non-Cumulative Redeemable

ttps://bilinfratech.com/ and to the following conditions :

reason and without any liability.

Procurement Technologies Limited (Auction Tiger) https://ncit.auctiontiger.net.

including terms and conditions will be notified in the website of the Corporate Debtor i.e https://bilinfratech.com,

BIL Infratech Limited- In Liquidatio

13 | IBBI Regn No.: IBBI/IPA-001/IP-P00087/2017-18/10183 AFA Valid till 27/11/2023 1, Ganesh Chandra Avenue, 3rd. Floor, Room No-301, Kolkata-700013

VIDLI RESTAURANTS LIMITED

n compliance with the aforesaid circulars, the Annual Reports for the financial year 2022 2023 along with the notice of 16" AGM will be sent to all the members whose email addresses are registered with the Company/ depository participants. The Annual Reports for the nancial year 2022-2023 along with the notice of 16th AGM will be available on the website of

The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for acilitating the shareholders of the Company to cast their votes via remote e-voting, e-voting the AGM and to enable the shareholders of the Company to participate in the 16" AGM via

have opportunity to cast their vote remotely or during the 16" AGM on the business set forth in the Notice of the 16" AGM through the electronic voting system. The manner of voting emotely or during the 16<sup>a</sup> AGM for members holding shares in physical or dematerialize mode or for members who have not registered their email ID will be provided in the Notic

Re. 0.50/- per Equity Share of face value of Rs. 10/- each for the Financial Year ended on 3th March, 2023, subject to approval of the Members at the AGM. The dividend will be paid on o hareholders who have updated their bank details.

by sending a duly signed request letter having email address, folio number and name of the member to the Registrars and Transfer Agents of the Company, M/s. Bigshare Services Private Limited at Office No S6-2, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, Next to thura Centre, Andheri East, Mumbai -400093 or email at investor@bigshareonline.com Members holding shares in dematerialized mode are requested to register or update their

The above information is being issued in compliance with the aforesaid MCA and SEB

Date : 31st July, 2023

### **BOROSIL RENEWABLES LIMITED**

The 60th Annual General Meeting ("AGM") of the Company will be held through Video Conferencing ("VC") facility on Friday, August 25, 2023 at 11:00 a.m. (IST) in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the ("SEBI"), to transact the business set out in the Notice calling the AGM. of AGM will also be made available on the website of National Securities

Manner of registering/ updating e-mail addresses, bank account details, etc.: Shareholders holding shares in physical mode are requested to register/update KYC details such as PAN (Aadhar linked), Nomination Details, Contact Details (address with PIN, mobile number and email address), Bank Account Details (bank name, branch name, account number and IFS code) and Specimer Signature with the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), Universal Capital Securities Private Limited. The relevant

name, branch name, account number and IFS code) and Specimen Signature with the relevant Depository Participant.

Place : Mumbai **Company Secretary and Compliance Officer** 

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्सनेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार देवेन्द्र गुप्ता प्रोपराइटर संकल्प एसोसिएट्स और कविता गुप्ता को 03.08.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLLAJ00431750 की राशि रू.76,64,621.32 (रूपये छिहत्तर लाख चौंसठ हजार छह सौ इक्कीस और बत्तीस पैसे मात्र) और 31.07.2022 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतदृद्धारा कर्जदार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स. 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 28.07.2023 को संपत्ति पर आधिपत्य कर लिया है ।

विशेषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतदद्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.76,64,621.32 (रूपये छिहत्तर लाख चौंसठ हजार छह सौ इक्कीस और बत्तीस पैसे मात्र) 31.07.2022 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा।

कर्ताओ का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

पहली मंजिल पर अपार्टमेंट नं. सी 030104 जिसका बिक्री योग्य एरिया 1734.03 स्ववेअर फीट (161.10 स्क्वेअर मीटर्स) , सेक्टर-92 में स्थित क्रिसेंट पार्क रॉयल ग्रीन्स से पहचाने जानेवाले ग्रोजेक्ट में बिल्डिंग नंबर सी 03 , गाँव वज़ीरपुर और मेवका, जिला गुरुग्राम-122001, हरियाणा, एक कवर्ड कार पार्किंग स्पेस के साथ ।

प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 28.07.2023 इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड स्थान : गुरुग्राम

कब्चा सूचना

जब कि. इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड (CIN:L65922DL2005PLC136029) प्राधिकृ अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियत असेट्स एंड एन्फोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरीटी इंटरेस्ट एक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम **3** के साथ धा 13(12) के साथ सिक्योरीटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार नुसरत खान, <mark>कुरेशा बेगम और दशरथ खान</mark> को 27.04.2023 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HHLAGR00472659) की राशि रू.18,45,700.73 🖊 (रूपए अठारह लाख पैंतालीस हजार सात सौ और तिहत्तर पैसे मात्र) और 20.04.2023 के अनुसार उस पर ब्याज उत्तर सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचन

ू धनराशि चुकता करने में कर्जदारों के असफल रहने पर एतत्तद्वारा कर्जदार और सर्व सामान जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप धारा (4) के सा उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरीटी ईन्ट्रेस्ट (एन्फोर्समेन्ट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 28.07.2023 को संपत्ति पर सांकेतिक आधिपत्य कर लिया है। विशोषत: कर्जदारों और सामान्यत: जनता को एतत्द्वारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधान किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू. 18,45,700.73 🖊 (रूपए अठारह लाख पैंतालीस हजार सात सौ और तिहत्तर पैसे मात्र) 20.04.2023 के अनुसार और उस पर ब्याज वे साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड के आधीन होगा । धारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप - धारा (8) के अन्तर्ग

संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण प्लॉट नं 4 की संपत्ति के भाग के सभी भाग और खंड, मापित 132 स्के यार्डस यानि 110.36 स्के मी

मापित 23.9 फीट X 50 फीट, खसरा नं.171ए और 172बी का भाग, बलदेवपुरी कॉलोनी में स्थित मौजा कौलक्खा, तहसील और जिला आगरा -282001, उत्तर प्रदेश निम्नंसार परिबद्ध है : पश्चिम: प्लॉट नं. 4 का भाग

पूर्व: हरिबाबू की कृषि जमीन उत्तर: 20 फीट चौडा रोड दक्षिण: प्लॉट नं. 4 का भाग

दिनांक: 28.07.2023 प्राधिकत अधिकार्र

सही/

इंडियाबुल्स हाउसिंग फायनान्स लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

सोम डिस्टिलरीज और ब्रेवरीज़ लिमिटेड

पंजी**कृत कार्यालयः ।-**ए, जी प्लाजा, अर्जुन नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, कमल सिनेमा रोड, नई दिल्ली–110029, **फोन:** + 91–11–26169909, 26169712, **फैक्स**: + 91–11–26195897 **कॉर्पोरेट कार्यालयः** सोम हाउस, 23, जोन ॥, एम.पी. नगर, मोपाल (म.प्र.)–462011 फोन: + 91-755-4278827, 4271271, फैक्स: + 91-755-2557470 र्डमेलः compliance@somindia.com, वेबसाइटः www.somindia.com

CIN: L74899DL1993PLC052787 (BSE: 507514, NSE: SDBL) विशेष आम बैठक की सूचना का शुद्धिपत्र

कंपनी ने 8 जुलाई, 2023 को विशेष आम बैठक बुलाने हेतु एक नोटिस (ईओजीएम का नोटिस) जारी किय है जिसके अनुसार सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज़ लिमिटेड के सदस्यों की विशेष आम बैठक ('ईओजीएम'; गनिवार, 5 अगस्त, 2023 को दोपहर 12:30 बजे, वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) या अन्य के माध्यम र यवसायों को चलाने के लिए ऑडियो–विजुअल साधन (ओएवीएम), जैसा कि ईओजीएम आयोजित करने

वाले नोटिस में निर्धारित है, आयोजित होगी। 4 जुलाई, 2023 को कंपनी के सदस्यों को, कंपनी के प्रावधानों के अनुपालन में कंपनी अधिनियम, 2013 तहत बनाए गए प्रासंगिक नियमों के साथ ईओजीएम नोटिस भेजा गया था।

कंपनी ने अब उक्त नोटिस में अतिरिक्त जानकारी के रूप में 31 जुलाई, 2023 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के तहत जारी किए गए ईओजीएम नोटिस के बयानों के आइटम नंबर 1 और 2 का व्याख्यात्मक विवरण की अतिरिक्त जानकारी एवं अन्य लागू प्रावधान, नियम और विनियम के साथ एक शुद्धिपत्र जारी किया है।

यह अतिरिक्त जानकारी ''अधिमान्य मुद्दे का उद्देश्य'' और ''निर्गम मूल्य और आधार या औवित्य जिसके आधार पर कीमत तय की गई है'' के तहत दिए गए खुलासे से संबंधित है'' जिसका संदर्म पृष्ठ संख्या 17, 18, 19, 24 और 25 पर दिया गया है एवं जहाँ भी मुद्दे के उद्देश्यों और मूल्यांकन रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाता है। सभी शेयरधारक यह ध्यान रखें कि यह शुद्धिपत्र उक्त नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा।

यह शुद्धिपत्र बीएसई लिमिटेड और एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com 8 ww.nseindia.com, कंपनी की वेबसाइट www.somindia.com और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराया गया है। 8 जुलाई 2023 को जारी हुए ईओजीएम वे नोटिस की अन्य सभी सामग्री पहले के सामान रहेगी। कंपनी के सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस पर ध्यान दें।

बोर्ड की आज्ञानसा सोम डिस्टिलरीज और ब्रेक्रीज़ लिमिटेड के लिए

**स्थान:** भोपाल ओम प्रकाश सिंह कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी **दिनांक**: 31 जुलाई 2023

Roto pumps since 1988 >>>

ROTO PUMPS LTD.

Regd. Off.: Roto House, Noida Special Economic Zone, Noida-201 CIN: L28991UP1975PLC004152 Tel.: +91 120 2567902-05, Fax +91 120 2567911 Email: Investors@rotopumps.com | Website: www.rotopumps. NOTICE TO EQUITY SHAREHOLDERS

Sub: Transfer of equity shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Account

Sub: transfer of equity shares to investor Education and Protection Fund (IEPF) Account. This Notice is published pursuant to the provisions of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules') notified by the Ministry of Corporate Affairs effective September 7, 2016. The Rules, inter alia, contain the provisions for transfer of all shares in respect of which dividend has been unclaimed for seven consecutive years or more in the demat account of IEPF Authority. Unclaimed dividend for the financial year 2015-16 would become due for transferred to IEPF on 4th November, 2023. In compliance with the requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders individually whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account under the said Rules for taking appropriate action. opropriate action.

The Company has uploaded full details of such shareholders and shares due for transfe to the IEPF Account on its website <a href="https://www.rotopumps.com">www.rotopumps.com</a>. Shareholders are requested to refer to <a href="https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/">https://rotopumps.com/unclaimed-dividend-shares/</a> to verify the details of the unencashed dividends and the shares liable to be transferred to the IEPF Account. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to the IEPF Account including all benefits accruing on such shares, if any, can ed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed in th

Rules.

Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Account may note that the Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of original held by them for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to the IEPF Account pursuant to the Rules.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 4th November, 2023, the Company shall with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the shares to the IEPF Account by the due date as per the procedure set out in the Rules. No claim shall lie against the Company in respond of the unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Account pursuant to

the said Rules. In case of any query on the above matter, shareholders may contact Mr. Ashwani Verma, Company Secretary, Roto Pumps Limited, 'Roto House', Noida Special Economi Zone, Noida - 2010305 Tel: 0120 2567902 or e-mail at investors@rotopumps.com

For Roto Pumps Ltd

Date: 31.07.2023

ASHWANI K. VERMA COMPANY SECRETARY

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालयः तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि—682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरमाषः +91 484-2396478, 2394712, फेक्सः +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकान में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (31,03.2022) की अवधि तक NPA खातों & 31.03.2023 की अवधि तक नकली / कम शुद्धता) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक समी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। प्रथम नीलामी की तिथि: 09.08.2023

Delhi-Nehru Place: MAL-3569, MDL-929, 1932, 1968, 2029, 2075, 2181, 2229, 2230, 2243, 2301, 2315, 2358, 2380, 2386, 2392, 2402, 2415, 2416, MUL-4121, 5115, 5116, 5317, 5413, 6763, 7689, 8333, 8590, 8604, 8606, 8609, 8631, 8662, 8675, 8743, 8772, 8785, 8797, 8814, 8833, 8889, 8891, 8945, 8954, 8956, 9008, 9033, 9040, 9041, 9059, 9085, 9166, SRS-29, 30, 64, 289, WBS-1, Delhi-Hauz Khas: BLS-22, MAL-5209, 5365, 5427, MDL-1351, 2374, 2383, 2780, 2798, 2954, 2963, 2965, 2972, 3048, 3078, 3186, 3188, 3235, 3292, 3323, 3330, 3443, 3457, 3465, MHL-890, MOL-230, MUL-5994, 8468, 13633, 13858, 13886, 14078, 14134, 14422, 14134, 14422, 14134, 14422, 14134, 14424, 14134, 14424, 14134, 14424, 14134, 14424, 14134, 14434, 1 11236, 11239, 11253, 11344, 11346, 11353, 11367, 11388, 11439, 11467, 11522, 11526, 11533, 11548, 11556, 11646, 11663, 11672, 11673, 11722, 11742, 11748, 11830, 11848, 11865, 11883, 11913, 11922, 12093, 12189, MWS-3307, 3447, 3650, 5710, 7387, 8336, 8746, Delhi-Munirka: MAL-2840, 2887, 3932, 3941, 4234, 4382, 4477, 4696, 4970, 5063, 5073, 5128, MDL-1821, 1992, 2319, 2534, 3083, 3281, 3322, 3325, 3334, 3395, 3420, 3453, 3454, 3482, 3493, 3536, 3570, 3572, 3645, 3646, 3649, 3656, 3685, 3702, 3731, 3732, 3733, 3742, 3814, 3823, 3879, 3888, 3901, 3941, 3960, 3967, 3985, 4054, 4102, 4103, 4107, 4149, 4166, 4203, 4282, 4287, 4382, 4390, 4391, 4404, 4415, 4449, 4503, 4530, 4542, 4555, 4559, 4851, 4712, 4753, 4762, 4783, 4819, 4843, 4869, 4884, 4942, 4979, 4983, 4984, 4997, 5002, MEG-28, MOL-243, 2721, MUL-7261, 8945, 8990, 9215, 9352, 9526, 9614, 9668, 9879, 10238, 10355, 10632, 12499, 14087, 14201, 14886, 15080, 16048, 16123, 16133, 16211, 16556, 16600, 16743, 17015, 17430, 17570, 17580, 17640, 17640, 17646, 17655, 17665, 17667, 17714, 17763, 17764, 17861, 17903, 17908, 17923, 17926, 17940, 17980, 17980, 17992, 18027, 18089, 18116, 18147, 18208, 18211, 18229, 18250, 18271, 18290, 18297, 18320, 18414, 18446, 18472, 18486, 18497, 18514, 18515, 18527, 18531, 18548, 18557, 18576, 18576, 18594, 18608, 18644, 18645, 18671, 18679, 18756, 18802, 18820, 18822, 18866, 18878, 18879, 18880, 18946, 18947, 18969, 18979, 19001, 19018, 19039, 19049, 19061, 19064, 19107, 19114, 19145, 19235, 19236, 19236, 19261, 19312, 19336, 19343, 19350, 19356, 19394, 19401, 19419, 19445, 19488, 19528, 19533, 19535, 19582, 19615, 19680, 19681, 19692, 19728, 19791, 19816, 19824, 19843 19939, 19945, 20217, 20233, 20563, MWS-2534, 2535, 5716, 6849, 7755, 8182, 8899, 8901, 9160, 9314, 9364, 9569, 9648, 10113, 10124, 10453, 11150, 11502, 11522, 11523, 11695, 11806, 11927, SRS-37, 39, Delhi-Kalkaji: BLS-2, MAL-1100, MDL-924, 1084, 1110, 1113, 1118, 1159, 1193, 1202, 1218, 1242, 1260, 1278, 1305, 1386, 1406, 1429, 1466, MUL-2769, 3002, 5173, 5178, 5217, 5269, 5309, 5344, 5425, 5459, 5464, 5483, 5493, 5496, 5568, MWS-1555, TCB-1, WBS-26, Delhi-Nehru Place II: MAL-1346, 1362, MDL-837, 920, 1054, 1092, 1161, 1170, 1172, 1207, MUL-1552, 4135, 4144, 4184, 4209, 4321, 4424, 4592, 4601, 4657, 4672, 4687, 4697, 4698, 4724, 4752, 4780, 4797, 4802, 4833, 4846, 4847, 4898, 4904, 5081, MWS-1075, 1602, 3064, **Delhi-Yusuf Sara**i: BLS-2, 3, 63, MAL-2279, 2494, 2670, 2816, MDL-1087, 1231, 1263, 1429, 1525, 1588, 1686, 1751, 1923, 1949, 1973, MUL-1192, 3613, 4558, 4866, 4985, 5222, 5586, 5606, 8279, 8619, 8837, 9014, 9034, 9069, 9227, 9271, 9288, 9401, 9402, 9416, 9425, 9429, 9466, 9491, 9503, 9523, 9545, 9547, 9559, 9602, 9718, **Delhi-Tughlakabad Extn:** MAL-1687, MDL-521, 724, 1720, 1836, 1950, 1977, 2132, 2170, 2179, 2193, 2197, 2263, 2267, 2270, 2349, 2446, 2509, 2527, 2614, 2719, MUL-3648, 5413, 5604, 5670, 5734, 5858, 6006, 6097, 6161, 6192, 6418, 6443, 6525, 6533, 6552, 6559, 6628, 6651, 6677, 6720, 6730, 6827, 6859, 6867, 6868, 6891, 6898, 6901, 6909, 6990, 7044, 7052, 7055, 7102, 7163, 7203, 7204, 7248, 7255, MWS-3425, 3710, 5085, SRS-50, Delhi-Mehrauli: MAL-3340, 3877, 3896, 3907, 4059, 4079, MDL-943, 1070, 1359, 1901, 2047, 2270, 2477, 2492, 2529, 2624, 2700, 2721, 2747, 2790, 2791, 2826, 2884, 2893, 2905, 2915, 2982, 3007, 3052, 3053, 3056, 3096, 3306, 3322, 3355, 3362, 3363, 3383, 3385, 3415, 3453, 3517, MOL-54, 223, MUL-2750, 5383, 5971, 5972, 6917, 6918, 6959, 7044, 7222, 7235, 7247, 7416, 7431, 7467, 7694, 7730, 7796, 7948, 7956, 8010, 8028, 8048, 8056, 8081, 8099, 8101, 8109, 8117, 8119, 8131, 8132, 8137, 8143, 8147, 8154, 8185, 8193, 8194, 8198, 8210, 8216, 8266, 8276, 8277, 8284, 8358, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, MUL-8690, 8773, 8960, 13150, 14038, 14381, 14654, 16011, 16141, 16584, 16676, 16693, 16741, 16756, 16759, 16810, 16877, 16883, 16884, 17020, 17028, 17189, 17310, 17312, 17313, 17314, 17337, 17359, 17364, 17366, 17386, 17386, 17389, 17412, 17442, 17458, 17469, 17475, 17490, 17509, 17536, 17547, 17552, 17558, 17570, 17573, 17633, 17695, 17759, 17762, 17849, 17945, 18027, Delhi-Jangpura: MAL-3866, 3916, MDL-1882, 1930, 2009, 2010, 2040, 2054, 2070, 2081, 2086, 2116, 2131, 2142, 2164, 2207, 2234, 2235, 2238, 2248, 2269, 2332, 2345, 2383, MEG-31, 32, MUL-4572, 6534, 6779, 6967, 8697, 8699, 8970, 9032, 9196, 9214, | MDL-1882, 1930, 2009, 2010, 2040, 2054, 2070, 2081, 2086, 2116, 2131, 2142, 2164, 2207, 2234, 2234, 2238, 2248, 2269, 2332, 2345, 2383, MIG-31, 32, MUL-4572, 6534, 6779, 6967, 8697, 86 2316, 2375, 2407, 2442, 2464, MEG-98, MUL-4313, 5177, 5191, 5259, 5262, 5336, 5392, 6282, 8781, 8956, 9037, 9057, 9086, 9089, 9199, 9308, 9365, 9471, 9475, 9487, 9509, 9510, 9523, 9529, 9568, 9587, 9589, 9595, 9643, 9659, 9663, 9669, 9672, 9680, 9715, 9795, 9847, 9851, 9869, 9875, 9892, 9963, 10039, Delhi-Mahipalpur: MAL-843, 2124, 2186, 2409, 2429, 2467, 2573, 2585, 2630, MDL-423, 1396, 1398, 1435, 1435, 1436, 1472, 1593, 1596, 1603, 1646, 1692, 1718, 1722, 1743, 1766, 1844, 1845, MUL-5630, 6281, 6346, 6717, 6724, 10105, 10281, 10317, 10339, 10387, 10337, 10381, 10392, 10417, 10499, 10545, 10577, 10726, 10726, 10811, 10839, 10888, 10935, 10936, 10937, 10938, 10960, 11038, 11056, 11080, 11084, 11131, 11135, 11139, 11139, 11233, 11258, 11260, 11273, 11319, 11342, 11375, 11410, 11606, SRS-98, Delhi-Vasant Kunj-Mascodpur: MAL-1623, 1810, MDL-948, 1138, 1173, 1175, 1180, 1195, 1204, 1224, 1225, 1263, 1393, MUL-3374, 3917, 3927, 4757, 6935, 7032, 7033, 7040, 7126, 7156, 7211, 7230, 7245, 7261, 7281, 7297, 7312, 7325, 7338, 7364, 7370, Delhi-Hari Nagar Ashram: MAL-766, 1431, MDL-854, 917, 938, 1000, 1032, 1040, 1072, 1124, 1136, 1168, 1204, 1232, MHP-164, MUL-3360, 4132, 5825, 5923, 6010, 6176, 6182, 6223, 6272, 6287, 6304, 6313, 6355, 6356, 6385, 6413, 6414, 6415, 6426, 6427, 6439, 6441, 6442, 6447, 6504, 6529, 6549, 6555, 6564, 6566, 6730, SRS-38, 53, 66, Delhi-Sant Nagar: MAL-1709, 2159, 2171, 2190, 2269, MDL-655, 680, 1129, 1169, 1416, 1628, 1673, 1679, 1684, 1719, 1767, MEG-12, MUL-797, 2890, 3079, 3290, 5768, 5970, 6688, 6754, 6755, 6761, 6768, 6793, 6818, 6884, 6988, 6966, 6963, 6963, 6964, 7015, 7044, 7057, 7056, 7079, 7104, 7107, 7107, 7173, 7174, 7175, 7190, 7204, WBS-233, Delhi-R.K. Puram: BLS-2, 3, 4, 5, 6, 42, 43, 44, MAL-980, 2197, 2611, 2647, 2938, 3213, 3280, 3479, 3494, 3511, 4014, 42484, 4256, 4389, 4404, 4527, 4677, 4715, 4715, 4759, 4896, MDL-476, 1006, 1407, 1545, 1609, 16 4256, 4389, 4494, 4527, 4677, 4715, 4755, 4757, 4759, 4896, MDL-476, 1096, 1407, 1545, 1609, 1629, 1648, 1682, 1789, 2247, 2268, 2457, 2515, 2516, 2517, 2567, 2669, 2670, 2719, 2812, 2844, 2941, 2993, 2994, 3019, 3068, 3071, 3254, 3285, 3287, MEG-42, 43, MUL-6049, 6050, 6233, 6302, 6474, 6575, 7216, 7424, 9905, 10399, 10865, 10908, 10968, 10988, 11157, 11219, 11330, 11390, 11460, 11468, 11474, 11482, 11495, 11504, 11518, 11568, 11584, 11589, 11635, 11690, 11695, 11807, 11809, 11812, 11813, 11818, 11815, 11992, 12012, 12042, 12052, 12053, 12054, 12055, 12056, 12058, 12077, 12113, 12114, 12137, 12179, 12182, 12202, 12208, 12262, 12267, 12367, 12367, 12539, 12578, 12615, SRS-3, 69, 77, Delhi-Katwaria Sarai: MAL-1320, 1426, MDL-658, 680, 681, 756, 766, 950, 967, MUL-3138, 3464, 5874, 6091, 6230, 6235, 6370, Delhi-Lado Sarai: BLS-16, 23, MAL-2328, 2702, 3364, 3378, MDL-1402, 1479, 1921, 1929, 1954, 1967, 2006, 2007, 2018, 2054, 2111, 2140, 2212, 2229, 2230, 2268, 2319, 2330, 2340, 2386, 2431, 2457, 2479, 2480, 2525, 2527, 2540, 2598 2627, 2651, 2672, 2680, 2687, 2756, MUL-6361, 6428, 6459, 6473, 6532, 8526, 10419, 10439, 10440, 11027, 11100, 11164, 11259, 11260, 11282, 11411, 11412, 11413, 11414, 11423, 11511, 11551, 11587, 11610, 11698, 11709, 11774, 11785, 11909, 11928, 11933, 11952, 11966, 11972, 11985, 12001, 12004, 12032, 12109, 12140, 12165, 12216, 12541, 12558, Delhi-Jeewan Nagar: MDL-810, 1049, 1077, 1191, 1206, 1214, 1216, 1229, 1265, MUL-4469, 4740, 4775, 4796, 4904, 4925, 4938, 4939, 4992, 5011, 5018, 5021, 5031, 5032, 5054, 5081, 5082, 5167, Delhi-Lajpat Nagar-3 CS Road: MAL-347, 985, MDL-547, 606, 651, 654, 683, 713, 718, 721, 735, 768, MEG-39, MUL-4493, 4681, 4830, 4925, 4978, 5017, 5039, 5068, 5085, 5099, 5113, 5116, 5118, 5127, 5200, 5209, 5345, SRS-12, Dalhi-Pul Pahladpur: MAL-3332, 3333, 3687, 3801, 3812, 3926, 4401, 4526, 4809, 5031, 5128, 5219, 5220, 5227, 5312, 5427, MDL-791, 1739, 1754, 2264, 2385, 2487, 2803, 2817, 2861, 2961, 2982, 2984, 2988, 3073, 3116, 3144, 3145, 3236, 3268, 3284, 3285, 3410, 3420, 3429, 3436, 3469, 3471, 3472, 3494, 3496, 3519, 3589, 3676, 3715, 3723, 3726, 3743, 3752, 3799, 3807, 3809, 3827, 3856, 3863, 3880, 3935, 3942, 3981, MUL-7014, 7605, 8006, 8622, 9727, 9960, 10203, 11114, 12281, 12810, 13227, 13408, 13409, 13413, 13614, 13632, 13879, 14047, 14106, 14130, 14198, 14289, 14406, 14411, 14420, 14437, 14511, 14552, 14598, 14702, 14779, 14859, 14885, 14991, 14992, 15007, 15022, 15059, 15100, 15108, 15150, 15154, 15165, 15225, 15253, 15256, 15307, 15362, 15363, 15365, 15370, 15430, 15447, 15530, 15566, 15650, 15696, 15703, SRS-33, 381, Delhl-Chirag: MAL-1271, MDL-987, 1046, 1051, 1052, 1058, 1099, 1115, 1159, 1214, 1215, 1232, 1270, 1329, 1402, 1410, 1445, MUL-4397, 4479, 4861, 5029, 5080, 5091, 5104, 5152, 5237, 5307, 5319, 5320, 5341, 5359, 5393, 5406, 5422, 5427, 5451, 5467, 5468, 5469, 5484, 5497, 5508, 5566, 5578, 5613, 5660, SRS-11, 30, 37, **Delhi-Devii Khanpur**: MAL-1532, 2383, 3530, 3912, 3986, 4045, 4146, 4295, 4346, 4352, MDL-359, 1782, 1854, 1963, 1986, 2041, 2093, 2156, 2544, 2555, 2564, 2581, 2604, 2638, 2649, 2653, 2698, 2701, 2703, 2705, 2711, 2734, 2821, 2823, 2824, 2847, 2848, 2964, 2965, 3012, 3013, 3050, 3057, 3062, 3071, 3125, 3141, 3190, 3240, 3263, 3264, 3265, 3315, 3317, 3326, 3337, 3344, 3345, 3356, 3471, 3474, 3523, 3602, 3605, 3650, MEG-15, MHL-61, MUL-3499, 5543, 6337, 7772, 9821, 10831, 11054, 11346, 12206, 12659, 12720, 12825, 13114, 13301, 13531, 13714, 13831, 13849, 13936, 13951, 14127, 14178, 14199, 14201, 14231, 14247, 14248, 14250, 14252, 14253, 14268, 14272, 14312, 14316, 14329, 14345, 14348, 14352, 14363, 14384, 14387, 14424, 14435, 14449, 14457, 14467, 14479, 14561, 14574, 14584, 14612, 14630, 14650, 14676, SRS-12, 57, 58, 66, 67, 201, 337, 379, Badarpur: MAL-142, MDL-235, 261, 281, 295, 297, 331, 334, 385, 395, 418, 454, 488, 541, 550, 551, MUL-666, 738, 779, 786, 813, 822, 852, 860, 869, 875, 884, 949, 959, 991, 996, 1039, 1073

नकली & कम शुद्धता: Delhi-Hauz Khas: SRS-449, Delhi-Munirka: MEG-277, Delhi-Okhla Phase II: TMS-255, Delhi-Sant Nagar: MUL-8044, Delhi-Chirag: MDL-1870 द्वितीय नीलामी की तिथि: 10.08.2023, Auction Centre: K-24, Feroze Gandhi Road, Laipat Nagar-II, New Delhi-110024

निलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमशः उन्हें शाखाओं में संचालित की जाएगी। हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियाँ) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी की तारीख को क्रमशः दिये गए नीलामी केंद्र में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी आगामी और ऐसी स्थित में जहाँ इस सब के बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएंगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट, ए 59ए, पहली मंज़िल, लाजपत नगर—॥, नई दिल्ली — 110024 नोटः ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: recoverynorth@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

वसूली अधिकारी—1 का कार्यालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरण—॥, दिल्ली चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001 <u>बिक्री उद्घोषणा सूचना</u> आर.सी.नं. 293/2014 कडीएफसी बँक लिमिटेड बनाम मैसर्स शेफको इंटरनेशनल

आयकर अधिनियम, 1981 की दूसरी अनुसूची के नियम 5292 के पठित **बैंक और वित्तीय संस्थाओं के देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के तहत बिक्री की उद्घोषणा** मैसर्स शेफको इंट्रुनेशनलु इसके माल्कि के मृष्यम से श्री केविन हायन्स 252 एच, कैलाश प्लाजा (शीर्ष मंजिल) संत नगर, नई दिल्ली – 110065, इसके

अलावा : 401, देविका टॉवर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली—1 100 19

अलावा: २४ ग, पार्चक टाकर, निर्फालक्तर, निर्मालक्ति । 100 ाज अलावा: २४ ग, पार्चिट नंबर 308 बी, तीसरी मंजिल, 52 ए, शैक्यपियर, सारणी कोलकाता कार्यालय परिसर नंबर 2, तीसरी मंजिल, एसएल टावर्स में, प्लॉट नंबर बी 3 ब्लॉक अल्फा कमर्शियल बेल्ट 1 सेक्टर अल्फा–1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धनगर, यूपी ऑफिस प्रॉपर्टी 3 बी, सी व्यू टावर्स, नंबर नोएडा, गौतम बुद्धनगर, यूपी ऑफिस प्रॉपर्टी 3 बी, सी व्यू टावर्स, नंबर 1, वेंकटलिंगम स्ट्रीट, फेज–2, चेन्नई 3 ''पलोर, ए-पार्ट, दूसरा फेज, सी व्यू टावर्स, नंबर 1, वेंकटलिंगम, 2 लेन, वीओसी नगर, चेन्नई–1 ऑफिस परिसर नंबर 302 ए, तीसरी मंजिल, एसएल टावर्स, प्लॉट नंबर बी 3, अल्फा कमर्शियल बेल्ट आई सेक्टर अल्फा–1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्धनगर, उत्तर प्रदेश।

स्वरूर अल्फो—1, प्रदर नाएडा, गांतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश। फेय हायन्स बी–87, सेक्टर—27, नोएडा, यू.पी — 201301 इसके अलावा : फ्लैट नंबर 308 बी, तीसरी मंजिल, 52 ए, शेक्सियर, सारणी, कोलकाता, इसके अलावा : कार्यालय परिसर संख्या 2, तीसरी मंजिल, एसएल टावर्स में, प्लॉट नंबर बी 3 ब्लॉक अल्फा कमर्शियल बेल्ट आई सेक्टर अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा : 3 बी में कार्यालय संपत्ति, सी व्यू टॉक्ट—1 वेंकटलिंगम स्ट्रीट, फेज— 2, चेन्नई इसके अलावा : तीसरी मंजिल, ए—भाग, दूसरा चरण, सी व्यू टावर्स, नंबर 1, वें कटलिंगम, दूसरी लेन वीओसी नगर, चेन्नई—1 में इसके अलावा : कार्यालय परिसर संख्या 302 ए, टीए फ्लोर, एसआई टावर्स, प्लॉट नंबर 9.3, अल्फा कमर्शियल बेल्ट आई सेक्टर अल्फा—1, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश

नियम और शर्तें : ानधन आर बारा : जबकि पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकारी—Il द्वारा दिनांक 13.08.2014 के ओ संख्या 152/2011 में वसूली प्रमाण पत्र संख्या 293/2014 में प्रतिवादियों के विरुद्ध रूपये **4,51,98,110/—(रूपये चार करोड़ इक्यावन लाख अष्ठानबे हजार एक सौ वस मात्र)** को राशि की वसूली के लिए प्रतिवादियों के विरुद्ध प्रतिवादियों के विरुद्ध 18% प्रतिवर्ष ब्याज के साथ वसूली प्रमाण पत्र संख्या 293/2014 तैयार किया गया है। (30.09.2022 तक वसूली योग्य राशि 12,35,28,809.88 रुपये (लगमग))।

आर जबकि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त वसूली प्रमाणपत्र की संतुष्टि में नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित संपत्ति की बिक्री का आदेश दिया है। नोटिस दिया जाता है कि स्थगन के किसी भी आदेश के अभाव में , उक्त संपत्ति को **ई—नीलाभी द्वारा बेचा जाएगा और बोली वेबसाइट के माध्यम से ''ऑनलाइन** 

इलेक्ट्रॉनिक बोली'' के माध्यम से 06.09.2023 को <u>https://www.bankeauctions.com</u> सुबह 11.09.2023 को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच दोपहर 12 बजे के बाद 5 मिनट की अविध के विस्तार के साथ होगी। बिक्री उपर्युक्त सीढी(ऑ) की संपत्ति की होगी, जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित है और उक्त संपत्ति से जुड़ी देनदारियों और दावे, जहां तक उनका पता

ाबको उपभुक्त सांडा(आ) का सपात का होगा, जसा कि नाच दा गई अनुसूची में उल्लाखत है आरं उक्त संपात्त से जुड़ा देनदाारया आरं दाव, जहां तक उनका पता लगाया गया है, प्रत्येक लॉट के खिलाफ अनुसूची में निर्दिष्ट हैं। अनुसूची में निर्दिष्ट संपत्ति को बिक्रों के लिए रखा जाएगा यदि बिक्रों द्वारा प्राप्त को जाने वाली राशि संपत्ति के एक हिस्से की बिक्री से संचुट होती है, तो शेष के संबंध में बिक्री तुरंत रोक दी जाएगी। यदि नीलामी रह होने से पहले, उक्त प्रमाण पत्र में उल्लेखित बकाया, ब्याज लागत (बिक्री की लागत सहित) बिक्री करने वाले अधिकारी को दी जाती हैं या उसकी संतुष्टि के लिए प्रमाण दिया जाता है कि ऐसे प्रमाण पत्र की राशि, ब्याज और लागत का मुगतान अधोहस्ताक्षरी को किया गया के को किसी प्रोप्त कर किसी

. बिक्री आयकर अधिनियम, 196 1 की दूसरी अनुसूची में निर्घारित शर्तों और उसके तहत बनाए गए नियमों और निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-अनुलमक अनुसूची में विनिर्दष्ट विवस्म अघोहस्ताक्षरी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए बताए गए हैं, लेकिन अघोहस्ताक्षरी इस उद्घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलव कथनया चुक के लिए उत्तरस्वयीनहीं होगा।

कथनया चुक का लए उत्तरवाया नहा हागा।
पैरा (1) में उल्लेखित संपत्ति के सं बंध में आविश्वत मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जायेगी घाएक संख्या (1) 38, सी व्यू टोवार्स, वेंकटलिंगम स्ट्रीट,
घरण-, चेन्नाल वाली संपत्तियां शामिल हैं; आरबित मूल्य कपये 32,44,000/— (कपये बतीस लाख चौवालीस हजार मात्र) और अग्रिम राशि जमा
(ईएमडी): रूपये 3,24,400/— (रूपये तीन लाख चौबीस हजार चार सौ मात्र), (द्वितीय तीसरी मंजिल, ए-भाग, वृसरा चरण, सी ब्यू टावर्स, नंबर 1 वेंकटलिंगम स्ट्रीट, दूसरी लेन, वीओसी नगर, चेन्नई—1; आरबित मूल्य रूपये 31,68,000/— (रूपये इक्तीस लाख अइसर हजार मात्र) और अग्रिम राशि जमा (ईएमडी): रूपये 3,16,800/— (तीन लाख सोलह हजार आठ सौ मात्र) और (iii) कार्यालय संख्या 302 (तीसरी मंजिल), एसएल टावर,
प्लॉट नंबर बो—3, ब्लॉक—अल्फा कमरियल बेल्ट—1, सेक्टर अल्फा—1, ग्रेटर नोएख, गौतम बुद्ध नगर, (उत्तर प्रवेश) 2478 वर्ग फुट, आरबित मूल्य रूपये 1,51,11,000/— (रूपये एक करोड़ छप्पन लाख ग्यारह हजार मात्र) और अग्रिम राशि जमा (ईएमडी): रूपये 15,61,100/— (रूपये पंद्रह

लाख इक्सठ हजार क्या मात्र) इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने पैन कार्ड, पहचान प्रमाण, पते के प्रमण आदि सहित दस्तावेजों के साथ 04.09.2023 **को शाम 5.00 बजे** से पहले रिकवरी अधिनियम—1, डीआरटी—, दिल्ली के कार्यालय में अपनी बोली आरबित मूल्य से कम नहीं जमा की है, वे 06.09.2023 **को सुबह 11.00 बजे से दोपहर** 12.00 बजे तक आयोजित होने वाली ई—नीलामी में माग लेने के लिए पात्र होंगे। यदि नीलामी के स मापन समय के अंतिम 5 मिनट में बोली लगाई जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

रताभग राज्य राजात रूप राजान के लिए के लिए के जिल्ला के लिए के बोलीदाता प्रयोजने संपिति के संबंध में रुपये 1,00,000/— (रुपये एक लाख मात्र) के गुणकों में अपनी पेशकश में सुधार करेंगे। असफ़ल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही बंद होने के तुरंत बाद वसूली अधिकारी—I, डीआरटी—II, दिल्ली/सीएव, यानी एकडीएफसी बँक वे

क्यालय स साब इन्हेंग आते परणा सफल (ज्व्यतम बौदाता को ई-नीलामी की समाप्ति के बाद 24 घंटे के मीतर वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली, के AC R.C. **293/2014** के पक्ष में बोली/बिक्री राशि के 25% के लिए डिमांड झुफ्ट/पे ऑर्डर तैयार करना होगा और ईएमडी को समायोजित करने के बाद इसे वसूली अधिकारी-I, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में भेजना/जमा करना होगा ताकि ई-नीलामी की समाप्ति से 24 घंटे के मीतर पहुंचा जा सके। ऐसा न करने पर ईएमडी को

दोंडत किया जाएगा
सफल/जच्चतम बोलीदाता डिमांड ड्रॉफ्ट/पे आडर के माध्यम से वसूली अधिकारी—I, डीआरटी—II, बिल्ली, A/C R.C. 293/2014 को को बिक्री आय
का शेष 75% वसूली अधिकारी—I, डीआरटी—II, दिल्ली के समक्ष संपत्ति की नीलामी की दिनांक से 15वें दिन या जससे पहले, यदि 15वां दिन एविवार या अन्य
अवकाश है ऐसे दिन को छोड़कर, या तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर पाउंड शुल्क @2% से 1000 रुपये तक, के साथ, रिजस्ट्रार,
डीआरटी—II दिल्ली के पश्च में 1000/—रुपये से अधिक की ऐसी सकल राशि की अधिकता पर @1% का जुर्माना लगाया गया है। (डाक के माध्यम से 75%
की शेष राशि जमा करने के मामले में यह वस्तूली अधिकारी के पास ऊपर के अनुसार पहुंचनी चाहिए)।
सफल/उच्चतम बोलीदाता को इसे फोरम के समझ जमा की जाने वाली प्रस्तादित नीलामी राशि पर लागू डीटीएस का मुगतान करने के लिए आयकर अधिनियम
की धारा 194—आईए के प्रावधानों का अनुपालन करने की स्वतंत्रता होगी। ऐसी घटना में, सफल/उच्चतम बोलीदाता को शेष सुरक्षित आय का मुगतान करते
समय इस फोरम के समझ उक्त राशि जमा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
निक्राणित अवकी के भीतर प्रमाल में सक के मामले में बिल की नई घोषणा जारी होने के बाद संपति को फिर से बेच दिया जाएगा। जमारामी बिली के सकतें को

निर्धारित अवधि के भीतर मुगतान में चूक के मामले में, बिक्की की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को फिर से बेच दिया जाएगा। जमाराशि, बिक्री के खर्चों को चुकाने के बाद, यदि अघोहस्ताक्षरी उचित समझता है, तो सरकार को जब्द किया जा सकता है और चूककर्ती खरीददार संपत्ति के सभी दावें या उस राशि के किसी मी हिस्से को जब्द कर लेगा, जिसके लिए इसे बाद में. बेचा जा सकता है।

संपत्ति को ''जो है जहां है अरि जो है जैसा है आबार'' पर बेचा जा रहा है। सीएच बैंक/सीएचएफआई को यहां दिए गए विवरणों की सत्यता के बारे में प्रमाणित और सत्यापित करने का निर्देश दिया जाता है।

अधोहरताक्षरी किसी भी समय नेति हैं है (बनराना के तिस्ती के तिस्ती के स्ति के स्ति के स्ति के मानवादिना जाता है य अधोहरताक्षरी किसी भी समय नेतियाँ को स्वीकार या अस्यीकार करने का अधिकार सुरबित रखता है यदि अनुचित पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए किसी भी समय नीलामी को स्थिमित कर सकता है।

संपत्ति की अनुसूची

संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से पर राजस्व मूल्यांकन विवरण	किसी भी देनदारी का विवरण जिसके लिए संपचि उत्तरदायी है	दावे, यदि कोई हो, जो संपत्ति के सामने रखे गए हैं , और इसके प्रकार और मूल्य को प्रभावित करने वाले कई अन्य ज्ञात विवरण
ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ল্পান নহী
ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं
	किसी मी हिस्से पर राजस्व मूल्यांकन विवरण ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं	किसी मी हिस्से का विवरण जिसके पर पाजस्व मूर्ट्याकन विवरण जिसके तिए संपंधि जत्तरयानी है जात नहीं जात नहीं जात नहीं

(उत्तम नेगी) क्सूली अधिकारी—I, डीआरटी—II, दिल्लं <u>04.07.2023</u> को मेरे हाथ और मुहर के त हत दिया गया,



### होम फर्स्ट फाइबैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड सीआईएवः L65990MH2010PLC240703.

वेबसाइटः homefirstindia.com, फोन नंबर : 180030008425, ईमेल आईडी: loanfirst@homefirstindia.com

अचल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई—नीलामी विक्रय सूचना।

परिशिष्ट-IV-ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)

एतदुद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ji) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह—कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत / प्रभारित कालम (jii) के अनुसार निम्न विवरणित अचल सम्पत्तियां, जिनका **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशियों और ब्याज की वसूली करने के लिए भौतिक कब्जा कर लिया गया है, और चूंकि बकाया राशियों का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप अब अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति 🖊 यों के विक्रय द्वारा बकाया राशियों की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "**जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कूछ भी हैं"** आधार पर किया जाएगा। **होम फर्स्ट फाइनैंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड** को देय—मुग्तेय कालम (j) के अनुसार कर्जदार(रों) तथा सह—कर्जदार(रों) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संचालन "**ऑनलाइन"** होगा।

	कर्जदार(रों) तथा सह—कर्जदार(रों) के नाम	सम्पत्ति पता			मांग सूचना राशि	कब्जा की तिथि	बाजार मूल्य	ईएमडी राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	ईएमडी एवं दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नम्बर
1.	उपेन्द्र सिंह राजावत, आशेन्द्र सिंह राजावत, गुड्डी कंवर	मकान–348, राजावत प्रिया विहार, गोविंदपुरा निवाडू	10-08-2022	16,94,013	25-07-2023	26,01,300	2,60,130	01-09-2023 (11am -2pm)	30-08-2023 (upto 5 pm)	8949562994	
2.	जय सिंह, पूजा सिंह	फ्लैट—122, ब्लॉक / बिल्डिंग—सी, यूनिट नंबर एफ—302, सोनू अपार्टमेंट—22 सी—122 रॉयल सिटी कलवार रोड, माचवा रॉयल सिटी, कलवार रोड, माचवा, जयपुर, राजस्थान—302012			11,70,825	28-07-2023	13,65,000	1,36,500	01-09-2023 (11am -2pm)	30-08-2023 (upto 5 pm)	8949562994
	ई—नीलामी सेवा प्रदाता		ई—नीलमी वेबसाइट / विवरणों, अन्य नियमों एवं शर्तों के लिए		खाता संः धराज / अन्य राशि जमा कराने के लिए			शाखा आईएफएससी लामार्थी का नाम कोड प्राधिकृत अधिकारी,			
<b>कम्पनी नाम :</b> ई—प्रोक्योरमेंट टेक्नोलोजीज लि. (ऑक्शन टाइगर) <b>हेल्पलाइन नं</b> . : 079—35022160 / 149 / 182		http://www.homefirstindia.com https://homefirst.auctiontiger.net	912020036268117— होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया				UTIB0000395		होम फर्स्ट फाइनैंस	<del>) -</del>	

बोली वृद्धि राशि — रू. 10,000/ —, विक्रय जो होगा वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेब पोर्टल (https://homefirst.auctiontiger.net) पर उपलब्ध ई—नीलामी मंच के माध्यम से होगा। ऑनलाइन ई—नीलामी बोली प्रपत्र, घोषणा, ऑनलाइन नीलामी विक्रय के सामान्य नियमों एवं शर्तों से समाविष्ट ई—नीलामी निविद प्रलेख पोर्टल साइट पर उपलब्ध हैं। प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां संपत्तियों पर कोई ऋणभार नहीं है। हालांकि, इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पूर्व नीलामी पर रखी गई संपत्ति / यों के ऋणमारों, नामाधिकार तथा संपत्ति को प्रमावित करनेवाले दावों / अधिकारों / बकाया राशियों के संबंध में अपनी स्वयं की स्वतंत्र जांच—पड़ताल कर लेनी चाहिए। ई—नीलामी विज्ञापन होम फर्स्ट की किसी प्रतिबद्धता अथवा किसी अभिवेदन को संस्थापित नहीं करता और संस्थापित करता हुआ नहीं माना जाएगा। संपत्ति का विक्रय होम फर्स्ट को ज्ञात अथवा अज्ञात समस्त विद्यमान एवं भावी ऋणमारों के साथ किया जा रहा है। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता किसी भी प्रकार किसी तृतीय—पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। विक्रय जो होगा वह वित्तीय जिस्सेपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत निर्धारित नियमों / शर्तो के अधीन होगा।

लिमिटेड-

एक्सिस बैंक लि. एमआईडीसी अंधेरी पर्व

सरफासी ऐक्ट, 2002 के तहत बिक्री के संबंध में 30 दिन का कानूनी नोटिस

कर्जदारों / गारंटरों को एतदद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे ई—नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ मांग सूचना में अंकितानुसार राशि का भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर संपत्ति की नीलामी / विक्रय कर दिया जाएगा और शेष बकाया राशियों, यदि कोई हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी।

स्थान : जयपुर

संपर्क हेतु व्यक्ति : राम शर्मा — 8000023297

ई—मेल आईडी : ramprasad@auctiontiger.net तथा support@auctiontiger.net

प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड

कम्पनी इंडिया लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना इसके द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि मेरी मुखिकक श्रीमती मिथलेश पत्नी श्री श्याम सिंह, निम्नतिखित संपत्तियों का स्वाम

भवासीय प्लॉट नंबर 112 क्षेत्रफल 152 वर्ग गज, खसरा नंबर 206/

1. आनासीय प्याँट नंबर 112 हैं ब्यूकल 152 तमी गत, खसरा नंबर 2665, सिख से बाहर खैराती नगर कॉलीनी, प्राम अकबरपुर बनार, परना लीनी, तहसील और जिला गांकिणावाद में स्थित है, पीजीकृत विक्रय वितंत्र दिनांक 15.03.2018 श्री ज्याम वत्त पुत्र श्री हरसरन द्वारा वितंत्र दिनांक 15.03.2018 श्री ज्याम वृत्त पुत्र श्री हरसरन द्वारा निकादित उत्त असर्पिक से स्थाम दत्त पुत्र श्री हरसरन द्वारा किया वितंत्र संस्था 16.66, पुरतक संस्था 1, खंड संस्था 6900, पुत्र 39 से 48,40 संस्था 18.66, पुरतक संस्था 1, खंड संस्था 6900, पुत्र 39 से 48,40 संस्था 18.66, पुरतक संस्था 1, खंड संस्था 6900, पुत्र 39 से 14,50 संस्था किया वित्य संस्था किया वित्य संस्था 6900, पुत्र 39 से 14,50 संस्था 690, प्रति वित्य संस्था 690, प्रति वित्य संस्था किया वित्य संस्था किया प्रति वित्य संस्था किया प्रति किया प्रति क्षा संस्था किया प्रति किया प्रति क्षा संस्था किया प्रति किया प्रति क्षा संस्था किया संस्था किया संस्था किया संस्था किया प्रति क्षा संस्था किया संस्था ानभावत उच्च वंपात क सवय में श्रामता भावताच पत्रा त्रा स्थान शह के पक्ष में पंजीकृत दस्ताबेज़ संख्या 6035, पुस्तक संख्या 1, खंड संख्या 3737, पुष्ट - २२ से ६०, एसआर-सदर-5 गाजिपाबादा 3. आवासीय प्लॉट नंबर 112 क्षेत्रफल ६० वर्ग गज पानी 50.166 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 206 ए. खसरा नं. से बाहर 206/5 मील, खेराती नगर

मीटर, खबरा नंबर 206 ए. खसरान है से बाहर 2005, भील, बेराती नाम कोलीनी, प्राप्त करपुर बुरावापुर, प्रम्पाना लोग, तहारी कोर दिला गाविष्याबाद में स्थित है, परिनेहन विक्रम विलेख दिलांक 21.11.2016 की प्राप्त दत पुर सर्वाधि भी हरसरन हारा निष्पादित उठत संपत्ति के संबंध में श्रीमती मिसरोल पात्री श्री एसाम सिंह के खाम में प्रीपहित दसावेज़ा संख्या 1741, पुरश्चक संख्या 1, अंड संख्या 1936, पृष्टु - 1 से 30, एसअप- स्वरूट ने प्राप्तावाद के संख्या 1936, पृष्टु - 1 से 30, एसअप- स्वरूट ने प्राप्तावाद के मोहित हैं। और मेरे प्राप्तावाद के मोहित हैं। और मेरे प्राप्तावाद के मोहित हैं। और एसे प्राप्तावाद के साविवाद के प्रेप्तावाद के साविवाद के स्वर्ण करना उत्तिवाद कि मीहित मनता द्वारा प्रमुप्त किए साविवाद के कामजाता में सरस वर्षाण का उपयोग थिकी पित्रेख दिनाक 28.09.2005 और साग विलेख दिनाक 03.112.2012 में हिन्सा गाव है। किसी को भी इस बंबाक पर कोई अपनित हो तो वह 7 हिन्ता प्रकाशना दिने सरस के आपित हो तो वह 7 हिन्ता प्रकाशना हो किसी को भी इस बंबाक पर कोई अपनित हो तो वह 7 हिन्ता प्रकाशना हो किसी को भी इस बंबाक पर साविवाद सिंका करना प्राप्तावाद के साविवाद सिंका करना स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद के स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद के स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद के स्वाप्तावाद करना स्वाप्तावाद के स्वाप् शेष्ट लिखित आपत्तियों के साथ अधोहस्ताक्षरी से संपर्क कर सकत

अन्यथा यह माना जाएगा कि इस बंधक पर कोई आपत्ति नहीं है। 72/03, गली नं. 2, कृष्णा नगर सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029

